

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 6371

12.04.2017 को दिया जाने वाला उत्तर

आईआरसीटीसी द्वारा खानपान कार्य

6371. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने भारतीय रेल खानपान और पर्टटन निगम (आईआरसीटीसी) को उत्तर दायित्व प्रदान कर प्रसिद्ध रेलगाड़ियों हेतु नई खानपान नीति की घोषणा करने का है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार संसद भवन/संसदीय सौध/नार्थ एवेन्यू में खानपान कार्य आईआरसीटीसी को सौंपने पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)

(क) और (ख): जी हां। रेल यात्रियों को गुणवत्तापरक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, गाड़ियों में खानपान सेवाओं के विकेंद्रीकरण के जरिए 27 फरवरी, 2017 को नई खानपान नीति, 2017 अधिसूचित की गई है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) को मुख्यतः भोजन तैयार करने और भोजन वितरण के बीच अंतर सृजित कर इसके विकेंद्रीकरण करने का अधिकार दिया गया है। भोजन तैयार करने की गुणवत्ता को अपग्रेड करने के लिए, आईआरसीटीसी नए किचन स्थापित करेगी और मौजूदा किचनों को अपग्रेड

करेगी। नई खानपान नीति में अन्य बातों के साथ-साथ खानपान सेवाओं के विकेंद्रीकरण के लिए निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं: (i) आईआरसीटीसी सभी सचल इकाइयों में खानपान सेवाओं का संचालन करेगी। (ii) सभी सचल इकाइयों के लिए भोजन आईआरसीटीसी के स्वामित्व, परिचालित और संचालित नामित किचनों से लिया जाएगा। (iii) आईआरसीटीसी गाड़ियों में भोजन परोसने के लिए आतिथ्य क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को नियुक्त करेगी। (iv) आईआरसीटीसी खानपान सेवाओं की व्यवस्था के लिए निजी लाइसेंसधारकों को प्रत्यक्ष रूप से आउटसोर्स नहीं करेगी अथवा लाइसेंस जारी नहीं करेगी। आईआरसीटीसी इन सेवाओं का स्वामित्व अपने पास रखेगी और बेस किचन स्थापित करने तथा उनके परिचालन और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित सभी समस्याओं के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगी।

(ग) और (घ): जी नहीं। संसद भवन/संसदीय सौध/नॉर्थ एवेन्यू कैंटीनों में खानपान सेवाएं उत्तर रेलवे द्वारा विभागीय रूप से मुहैया कराई जा रही हैं।
